भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †4031 सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

त्रिपुरा में जनजातीय समुदाय के लिए प्रयास

†4031. श्रीमती कृति देवी देबबर्मनः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

- (क) सरकार द्वारा विशेषकर जनजातीय विरासत, पारिस्थितिकी पर्यटन और वन्यजीव पर्यटन पर केंद्रित पहलों के माध्यम से त्रिपुरा में जनजातीय समुदायों को पर्यटन क्षेत्र में शामिल करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं;
- (ख) पर्यटन के लाभों को जमीनी स्तर तक पहुँचाने के लिए होमस्टे, स्थानीय गाइड सेवाओं और हस्तिशिल्प की बिक्री को बढ़ावा देने हेतु उठाए गए/उठाए जा रहे कदमों का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार त्रिपुरा में इन समुदायों के लिए स्थायी आजीविका के सृजन के लिए पर्यटन को स्थानीय आर्थिक विकास का एक प्रमुख चालक बनाने के लिए किस प्रकार कार्य कर रही है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ग): वन्यजीव, जनजातीय और विरासत पर्यटन सिहत पर्यटक स्थलों और पर्यटन उत्पादों का विकास एवं संवर्धन मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा िकया जाता है। पर्यटन मंत्रालय 'स्वदेश दर्शन', 'स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0)', स्वदेश दर्शन की उप योजना 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)', 'तीर्थयात्रा कायाकल्प और आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' और 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' (एसीए) नामक अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से इन प्रयासों को संपूरित करता है। उक्त योजनाओं के तहत निधियों की उपलब्धता, योजना दिशानिर्देशों के अनुपालन और राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (डीपीआर) की प्रस्तुति के अध्यधीन वितीय सहायता प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने 'पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई)' नामक पहल के तहत भी पर्यटन परियोजनाओं के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है।

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, पर्यटन मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना के घटक - जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के लिए उक्त योजना के कुल परिव्यय का 4.3% अर्थात 103 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं, जिसमें जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के तहत 88 करोड़ रुपये और प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान (पीएम-जेयूजीए) के तहत 15 करोड़ रुपये शामिल हैं। व्यय का यह विशिष्ट शीर्ष मुख्य रूप से अनुसूचित जनजाति-बह्ल क्षेत्रों में निवेश

सुनिश्चित करता है, जिससे सांस्कृतिक संरक्षण, आर्थिक उत्थान और समावेशी पर्यटन विकास को बढ़ावा मिलता है। जनजातीय परिपथ विषय के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का उद्देश्य विशेष रूप से जनजातीय विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाना और जनजातीय समुदायों को पर्यटन सेवा श्रृंखला में जोड़ना है, ताकि सतत और क्षेत्रीय रूप से संतुलित विकास में योगदान मिल सके।

वर्ष 2014-15 में शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना के तहत शुरुआत में विकास के लिए 15 विषयगत परिपथों को चिहिनत किया गया था, जिनमें प्रमुख विषय के रूप में इको-पर्यटन, वन्यजीव और जनजातीय परिपथ शामिल थे। जनजातीय परिपथ विषय के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं का उद्देश्य विशेष रूप से जनजातीय विरासत के प्रति जागरूकता बढ़ाना और जनजातीय समुदायों को पर्यटन सेवा श्रृंखला में जोड़ना है, ताकि सतत और क्षेत्रीय रूप से संतुलित विकास में योगदान मिल सके।

स्वदेश दर्शन योजना के तहत त्रिपुरा राज्य सिहत देश भर में स्वीकृत परिपथों का विवरण अनुबंध-। में दिया गया है।

अवसंरचना विकास के अतिरिक्त, मंत्रालय ने जनजातीय क्षेत्रों में आजीविका संवर्धन के लिए पीएम-जेयूजीए के तहत 'जनजातीय क्षेत्रों में होमस्टे का विकास' जैसी लिक्षित पहल भी शुरू की है। इस पहल का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में 1,000 होमस्टे के निर्माण में सहायता प्रदान करना है, जिसमें ग्राम समुदाय की आवश्यकताओं के लिए 5 लाख रु., प्रति परिवार दो नए कमरों के निर्माण के लिए 5 लाख रु. और मौजूदा कमरों के नवीनीकरण के लिए 3 लाख रु. तक की वितीय सहायता के साथ-साथ होमस्टे मालिकों के तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल विकास संबंधी प्रावधान शामिल हैं। इन उपायों का उद्देश्य स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना और पर्यटन से जुड़ी आजीविका सृजन संबंधी चुनौतियों का व्यवस्थित रूप से समाधान करना है। अभी तक की स्थिति के अनुसार, पीएम-जेयूजीए होमस्टे पहल के तहत कोई निधि जारी नहीं की गई है।

अतुल्य भारत पर्यटक सुविधा प्रदाता (आईआईटीएफ) प्रमाणन कार्यक्रम के अंतर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को शुल्क में छूट दी जाती है। यह मंत्रालय द्वारा संचालित एक डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य देश भर में सुप्रशिक्षित और पेशेवर पर्यटक सुविधा प्रदाताओं और पर्यटक गाइडों का एक समूह तैयार करने के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण मंच का सृजन करना है। यह प्रणाली उम्मीदवारों के लिए बुनियादी, उन्नत (विरासत और साहसिक), मौखिक भाषा और प्नश्चर्या पाठ्यक्रम प्रदान करती है।

पर्यटन मंत्रालय अपने सतत प्रयासों के तहत, प्रचार कार्यक्रमों, मेलों और महोत्सवों के आयोजन के लिए राज्य सरकारों को सहायता करता है और प्रदर्शनियों में भागीदारी, वेबसाइट, सोशल मीडिया आदि सहित विभिन्न पहलों के माध्यम से भारत के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों का समग्र रूप से संवर्धन करता है।

पिछले पांच वर्षों के दौरान डीपीपीएच योजना के तहत त्रिपुरा राज्य में पर्यटन मंत्रालय द्वारा समर्थित मेलों और महोत्सवों का विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

अनुबंध-।

श्रीमती कृति देवी देबबर्मन द्वारा त्रिपुरा में जनजातीय समुदाय के लिए प्रयास के संबंध में दिनांक 18.08.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. †4031 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में विवरण

स्वदेश दर्शन योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की सूची:

क्र.	राज्य/संघ	परिपथ/	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
सं.	राज्यक्षेत्र	स्वीकृति वर्ष		(करोड़ रु. में)
1.	अंडमान और	तटीय परिपथ	लॉन्ग द्वीप - रॉस स्मिथ द्वीप - नील द्वीप -	27.57
	निकोबार	2016-17	हैवलॉक द्वीप-बाराटांग द्वीप - पोर्ट ब्लेयर का	
	द्वीप समूह		विकास	
2.	आंध्र प्रदेश	तटीय परिपथ	काकीनाडा - होप आइलैंड - कोरिंगा वन्यजीव	67.83
		2014-15	अभयारण्य - पासरलापुडी - अडुरु - एस यानम -	
			कोटिपल्ली का विकास	
3.	आंध्र प्रदेश	तटीय परिपथ	नेल्लोर - पुलिकट झील - उब्बलमाडुगु जल प्रपात	49.55
		2015-16	- नेलापट्टू - कोठाकोडुरु - मायपाडु - रामतीर्थम -	
			इस्कापल्ली का विकास	
4.	आंध्र प्रदेश	बौद्ध परिपथ	बौद्ध परिपथ: शालीहुंडम - बाविकोंडा -	35.24
		2017-18	बोज्जनकोंडा - अमरावती - अनूपु का विकास	
5.	अरुणाचल	उत्तर-पूर्वी	भालुकपोंग - बोमडिला और तवांग का विकास	49.77
	प्रदेश	परिपथ		
		2014-15		
6.	अरुणाचल	उत्तर-पूर्वी	नफरा - सेप्पा - पप्पू, पासा, पक्के घाटियाँ -	96.72
	प्रदेश	परिपथ	संगदूपोटा-न्यू सगाली - जीरो-योम्चा का विकास	
		2015-16		
7.	असम	वन्यजीव	मानस - प्रोबितोरा - नामेरी - काजीरंगा - डिब्रू -	94.68
		परिपथ	सैखोवा का विकास	
		2015-16		
8.	असम	विरासत परिपथ	तेजपुर - माजुली - शिवसागर का विकास	90.98
		2016-17		
9.	बिहार	तीर्थंकर परिपथ	वैशाली - आरा - मसाद - पटना - राजगीर -	33.96
		2016-17	पावापुरी - चंपापुरी का विकास	
10.	बिहार	आध्यात्मिक	कांवरिया मार्ग: सुल्तानगंज - धर्मशाला - देवघर	44.76
		परिपथ	का विकास	
		2016-17		
11.	बिहार	बौद्ध परिपथ	बौद्ध परिपथ का विकास - बोधगया में कन्वेंशन	95.18
		2016-17	सेंटर का निर्माण	
12.	बिहार	ग्रामीण परिपथ	भितिहरवा - चंद्रहिया - तुर्कौलिया का विकास	44.27
		2017-18		

4.0	_		. 0 .4 .: 1. 0	
13.	,		मंदार हिल और अंग प्रदेश का विकास	44.55
	परिपथ			
	2017-18			
14.	छत्तीसगढ़	जनजातीय	जशपुर - कुनकुरी - मैनपाट - कमलेशपुर -	96.10
		परिपथ	महेशपुर - कुर्दार - सरोधदादर - गंगरेल -	
		2015-16	कोंडागांव - नाथियानवागांव - जगदलपुर - चित्रक्ट	
			- तीर्थगढ़ का विकास	
15.	गोवा	तटीय परिपथ	सिंक्वेरिम - बागा, अंजुना - वागाटोर, मोरजिम -	97.65
		2016-17	केरी, अगुआड़ा किला और अगुआड़ा जेल का	
			विकास	
16.	गोवा	तटीय परिपथ	तटीय परिपथ II: रुआ डी ओरम क्रीक - डोना	99.35
		2017-18	पाउला - कोलवा - बेनौलिम का विकास	
17.	ग्जरात	विरासत परिपथ	अहमदाबाद - राजकोट - पोरबंदर - बारदोली -	59.17
	•	2016-17	दांडी का विकास	
18.	गुजरात	विरासत परिपथ	वडनगर - मोढेरा का विकास	91.12
	.	2016-17		
19.	गुजरात	बौद्ध परिपथ	जूनागढ़ - गिर सोमनाथ - भरूच - कच्छ -	26.68
	3	2017-18	भावनगर - राजकोट - मेहसाणा का विकास	
20.	हरियाणा	कृष्ण परिपथ	कुरुक्षेत्र में महाभारत से संबंधित स्थानों पर	77.39
		2016-17	्र पर्यटन अवसंरचना का विकास	
21.	हिमाचल	हिमालयन	हिमालयन परिपथ: कियारीघाट, शिमला, हाटकोटी,	68.34
	प्रदेश	परिपथ	मनाली, कांगड़ा, धर्मशाला, बीर, पालमप्र, चंबा	
	2016-17		का विकास	
22.	जम्मू और	हिमालयन	जम्मू - श्रीनगर - पहलगाम - भगवती नगर -	77.33
	कश्मीर	परिपथ	अनंतनाग - सलामाबाद, उरी - कारगिल - लेह का	
	2016-17		विकास	
23.			जम्मू-राजौरी-शोपियां-प्लवामा में पर्यटक स्विधाओं	81.60
	कश्मीर	परिपथ	का विकास	J U
	1: 3-113	2016-17		
24.	जम्मू और	हिमालयन	पर्यटक स्विधाओं का विकास - पीएम विकास	90.43
	कश्मीर कश्मीर	परिपथ	पैकेज के तहत 2014 में बाढ़ में नष्ट हुई	50.10
	2016-17		परिसंपत्तियों के बदले परिसंपत्तियों का निर्माण	
25.	जम्मू और	हिमालयन	मंतलाई और स्धमहादेव में पर्यटक स्विधाओं का	91.99
20.	कश्मीर परिपथ		विकास	01.00
	7/1/	2016-17	1999	
26.			अनंतनाग - पुलवामा - किश्तवर - पहलगाम -	86.39
20.			जांस्कर पदुम - दक्सुम - रंजीत सागर बांध में	00.03
27		2016-17	पर्यटक सुविधाओं का विकास	01 04
27.	जम्मू और	हिमालयन	गुलमर्ग - बारामूला - कुपवाड़ा - कारगिल - लेह में	91.84
	कश्मीर	परिपथ	पर्यटक सुविधाओं का विकास	
		2016-17		

		T.		
28.	झारखंड	इको परिपथ	इको पर्यटन परिपथ: दलमा - बेतला नेशनल पार्क	30.44
		2018-19	- मिरचैया - नेतरहाट का विकास	
29.	केरल	इको परिपथ 2015-16	पथनमथिट्टा - गवी - वागामोन - तेक्कडी का विकास	64.08
30.	केरल	आध्यात्मिक	सबरीमाला - एरुमेली - पम्पा - सन्निधानम का	46.54
30.	भरल	जाध्यात्मक परिपथ		40.54
			विकास	
0.4	<u> </u>	2016-17		70.00
31.	केरल	आध्यात्मिक	श्रीपद्मनाभ अर्नामूला का विकास	78.08
		परिपथ		
		2016-17		
32.	केरल	ग्रामीण परिपथ	मालानाड मालाबार क्रूज पर्यटन परियोजना का	57.35
		2018-19	विकास	
33.	केरल	आध्यात्मिक	शिवगिरी श्री नारायण गुरु आश्रम - अरुवीपुरम -	66.42
		परिपथ	कुन्नुमपारा श्री सुब्रहमनिया - चेम्बझंथी श्री	
		2018-19	नारायण गुरुकुलम का विकास	
34.	मध्य प्रदेश	वन्यजीव	पन्ना-मुकुंदपुर-संजय-दुबरी- बांधवगढ़-कान्हा -	92.10
		परिपथ	मुक्की - पेंच में वन्यजीव परिपथ का विकास	
		2015-16		
35.	मध्य प्रदेश	बौद्ध परिपथ	सांची - सतना - रीवा - मंदसौर - धार का विकास	74.02
		2016-17		
36.	मध्य प्रदेश	विरासत परिपथ	ग्वालियर - ओरछा - खजुराहो - चंदेरी -	89.82
		2016-17	भीमबेटका - मांडू का विकास	
37.	मध्य प्रदेश	इको परिपथ	गांधीसागर बांध - मंडलेश्वर बांध - ओंकारेश्वर	93.76
		2017-18	बांध - इंदिरा सागर बांध - तवा बांध - बरगी बांध	
			- भेड़ाघाट - बाणसागर बांध - केन नदी का	
			विकास	
38.	महाराष्ट्र	तटीय परिपथ	सिंध्दुर्ग तटीय परिपथ - सागरेश्वर, तारकरली,	19.06
		2015-16	विजयद्र्ग (बीच और क्रीक), मितभव का विकास	
39.	महाराष्ट्र	आध्यात्मिक	वाकी - अदासा - धापेवाड़ा - पारदसिंघा -	45.47
	••	परिपथ	तेलनखेडी - गिराड का विकास	
		2018-19		
40.	मणिप्र	उत्तर-पूर्वी	मणिप्र में पर्यटक परिपथ: इम्फाल -खोंगजोम का	72.23
	J	परिपथ	विकास	
		2015-16		
41.	मणिप्र	आध्यात्मिक	श्री गोविंदजी मंदिर, श्री बिजॉय गोविंदजी मंदिर -	45.34
	3	परिपथ	श्री गोपीनाथ मंदिर - श्री बंगशीबोदोन मंदिर - श्री	
		2016-17	कैना मंदिर का विकास	
42.	मेघालय	उत्तर-पूर्वी	उमियम (लेक व्यू), यू लुम सोहपेटबनेंग -	99.13
	•	परिपथ	मावडियांगडियांग - आर्किड लेक रिज़ॉर्ट का विकास	- -
		2016-17		
43.	मेघालय	उत्तर-पूर्वी	वेस्ट खासी हिल्स (नोंगखलाव- क्रेम तिरोट -	84.97
		2, 7	1.12 5.1.1. 10.1.1 (1.1.1.51.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.	5

		परिपथ	खुदोई और कोहमांग जलप्रपात - खरी नदी-	
		2018-19	मावथाद्रीशन, शिलांग), जयंतिया हिल्स (क्रांग सूरी	
		2010-13	फॉल्स- शिरमंग-इयूक्सी), गारो हिल्स (नोकरेक	
			रिजर्व, कट्टाबील, सिजू गुफाएं) का विकास	
44.	मिजोरम	337 H		02.26
44.	।मजारम	उत्तर-पूर्वी परिपथ	थेनजोल और साउथ ज़ोटे, जिला सेरछिप और	92.26
			रईक का विकास	
45	<u> </u>	2015-16		00.07
45.	मिजोरम	इको परिपथ	इको-एडवेंचर परिपथ आइजोल -रावपुइचिप -	66.37
		2016-17	खवफाप - लेंगपुई - चटलांग- सकाव्रहमुइटुइतलांग	
			- मुथी - बेराटलांग - तुइरियल एयरफील्ड -	
	41*		हमुइफांग का विकास	
46.	नागार्लेंड	जनजातीय	जनजातीय परिपथ पेरेन- कोहिमा- वोखा का	97.36
		परिपथ	विकास	
		2015-16		
47.	नागार्लेंड	जनजातीय	मोकोकचुंग - तुएनसांग - मोन का विकास	98.14
		परिपथ		
		2016-17		
48.	ओडिशा	तटीय परिपथ	गोपालपुर, बरकुल, सतपाड़ा और तंपारा का	70.82
		2016-17	विकास	
49.	पुडुचेरी	तटीय परिपथ	दुबरियापेट - अरिकमेडु - वीरमपट्टिनम -	58.44
		2015-16	चुन्नम्बर - नल्लावाडु/नरमबाई - मनापेट -	
			कालापेट - पुडुचेरी - यानम का विकास	
50.	पुडुचेरी	विरासत परिपथ	फ्रेंको - तमिल गांव, कराईकल, माहे और यानम	49.44
		2017-18	का विकास	
51.	पुडुचेरी	आध्यात्मिक	पुडुचेरी में आध्यात्मिक परिपथ का विकास	34.96
		परिपथ		
		2017-18		
52.	पंजाब	विरासत परिपथ	आनंदपुर साहिब - फतेहगढ़ साहिब - चमकौर	85.32
		2018-19	साहिब - फिरोजपुर - खटकर कलां - कलानौर -	
			पटियाला का विकास	
53.	राजस्थान	मरुस्थल परिपथ	सांभर लेक टाउन और अन्य स्थलों का विकास	50.01
		2015-16		
54.	राजस्थान	कृष्ण	गोविंद देव जी मंदिर (जयपुर), खाटूश्याम जी	75.80
		परिपथ	(सीकर) और नाथद्वारा (राजसमंद) का विकास	
		2016-17		
55.	राजस्थान	आध्यात्मिक	आध्यात्मिक परिपथ - 'चुरू (सालासर बालाजी) -	87.05
		परिपथ	जयपुर (श्री समोदके बालाजी, घाटके बालाजी,	
		2016-17	बंधेके बालाजी) - विराटनगर (बीजक, जैनसिया,	
			अंबिका मंदिर) - भरतप्र (कमान क्षेत्र) - धौलप्र	
			(मुचकुंड) - मेहंदीपुर बालाजी - चितौडगढ़	
			(सांवलियाजी) का विकास	
		ı	•	

परिषय 2017-18 जयपुर (जयपुर और नाहरगढ़ किल के अध्यक्षाग में प्रकाश व्यवस्था) -झालावाड (गागरोन किला) - चितांडगढ़ (चितांडगढ़ किला) - जेसलमेर (जैसलमेर (जैसलमेर किला) - हिनुमानगढ़ (गागामेडी) - उदयपुर (प्रताप गौरव केंद्र) - धौलपुर (बाग-ए- निलोफर और पुरानी छावनी) - नागौर (मीरा बाई स्मारक, मेडला) - टोंक (मुनहरी कोठी) का विकास रंगपी (प्रवेश) - रोराधांग - अगिरार - फाइमचेन - नाथंग - शेराधांग - सोगान - गांगटोक - फोडोंग - शंगन - लाचुंग -युमयांग - लाचेन - थांगु - गुरुडोंगमेर - मंगन - गांगटोक - तुमिनलिंगी - सिंगतम (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिषय का विकास (सींगटम-मका-टेमी - बेसमोइक टोकेल - फॉगिया - नामची - जोरथांग - ओखारे - सोम्बारिया - नामची - जोरथांग - ओखारे - सोम्बारिया - नामची - जोरथांग - मेलली (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिषय का विकास (विन्ता) किलानाडु को परिषय प्रवान - जोरथांग - मेलली (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिषय का विकास (विन्ता) किलानाडु वाले पर्यटक परिषय का विकास (विकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिषय का विकास (विकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिषय का विकास (विकास) किलानाडु को परिषय प्रवान - महबूबनगर जिले में इको पर्यटन परिषय का विकास (विकास) विकास (विकास) किलानाच्या इस्तानां का विकास (विकास) विकास (विकास) किलानाच्या इस्तानां का विकास (विकास) विवास परिषय अगरतला - सिगाहीजला - मेलाघर - उदयपुर - अमरपुर - तीर्थमुख - मंदिरघाट - इंब्रू - नारिकेलुकुज - गंडाचरा - अंबासा का विकास (स्थापिय धुवनेवरी-नीरमहल - बॉक्सनगर चोट्टाखोला - प्रवान परिषय प्रवान परिषय अवस्थी-नीरमहल - बॉक्सनगर चोट्टाखोला - प्रवान परिषय प्रवान परिषय अवस्थी-नीरमहल - बॉक्सनगर चोट्टाखोला - परिषय प्रवान परिषय प्रवान परिषय प्रवान अगर का विकास (विकास) विकास (विकास) विकार - अत्योग ना सरोसी (उल्लाव) - परिषय प्रवान का विकास विवास परिषय प्रवान का विकास विवास विवास परिषय प्रवान का विवास परिषय प्रवान का विकास विवास परिषय प्रवान का विवास परिषय प	56.	9III	विगाएन	विस्तान समिष्टा सन्तर्भात (कंशन्सक विन्त)	70.61
2017-18 प्रकाश व्यवस्था) -झालावाइ (गागरोन किला) - चितौइगढ़ (चितौइगढ़ किला) - जंसतमेर (जैसलमेर किला) - हमुमानगढ़ (गोगामेडी) - उदयपुर (प्रताप गौरव केंद्र) - धौलपुर (बाग-ए- निलोफर और पूरानी छावनी) - नागौर (मीरा बाई स्मारक, मेडता) - टॉक (सुनहरी कोठी) का विकास रंगपो (प्रवेश) - रोराथांग - अरितार - फाढ़मचेन - नाथंग - गाथंग - श्राथांग - तोगानो - गंगटोक - फोडोंग - मंगन - नाथंग - गुरुडोंगमेर - मंगन - गंगटोक - जुनितिली। - सिंगतम (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपथ का विकास (चैन्नई - मामलापुरम - रामेश्वरम - मानपाडु - यरमदिन - जोरथांग - अराथार - सोमबरिया - यरमदिन - जोरथांग - मेलली (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपथ का विकास (चैन्नई - मामलापुरम - रामेश्वरम - मानपाडु - यरमदिन - जोरथांग - मेलली (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपथ का विकास (चैन्नई - मामललापुरम - रामेश्वरम - मानपाडु - यरमदिन - जोरथांग - मेलली (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपथ का विकास (चैन्नई - मामललापुरम - रामेश्वरम - मानपाडु - यरमदिन - जोरथांग - मेलली (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपथ का विकास (चैन्नई - मामललापुरम - रामेश्वरम - मानपाडु - यरमदिन परिपथ वाले पर्यटक परिपथ का विकास (चैन्नई - मामललापुरम - रामेश्वरम - मानपाडु - यरमदिन परिपथ वाले पर्यटक परिपथ का विकास (चैन्नई - मामललापुरम - मेदवरम - तड़वई - दमारवी - मल्लूर - बोगाथा झरनों का विकास (चैन्सई - मानपाडु - मिल्यामा झरनों का विकास वख्यी मस्जिद - रमंड का मकबरा का विकास (चिर्म - मल्लूर - बोगाथा झरनों का विकास वख्यी मस्जिद - रमंड का मकबरा का विकास (चिर्म - मल्लूर - बारिकलकुंज - गंडावरा - अंबासा का विकास (चर्म - पर्यय अवनेश्वरी-नीरमहल - बोन्सनवार - चोट्टाछोला - पिराय अवनेशनी - पर्याय - अवनायार का विकास (चिन्नई का मिमलाइन का विकास परायाय - अवनाय - विन्सनवार - चोट्टाछोला - पिराय अवनेश्वरी - प्रायय - अवनाय - अवनाय -	50.	৻৻অৼঀ৻ঀ		-	70.01
चितांडगढ़ (चितांडगढ़ किला) - अंसलमंर (अंसलमंर किला) - इनुमानगढ़ (गोगामोड़ी) - उदयपुर (प्रताप गौरत केंद्र) - धौलपुर (बाग-प- किलोफर और पुरानी छावनी) - नागौर (मीरा बाई स्मारक, मेडता) - टॉक (सुनहर्स कोठी) का विकास				3 3	
(अंसलमेर किला) - हनुमानगढ़ (गोगामेड़ी) - उदयपुर (प्रताप गौरव केंद्र) - धौलपुर (बाग-ए- निलोफर और पूरानी छावनी) - गागीर (मीरा बाई स्मारक, मेड़ता) - रॉक (सुनहरी कोठी) का विकास गंगपे (प्रवेश) - रोराथांग - सोरतार - फादमचेन - पारंप मंगन - लाचुंग - थेराथांग - सोगमो - गागोर को ने परंप मंगन - लाचुंग - थेराथांग - सोगमो - गागोर के परंप परंप मंगन - लाचुंग - थागोर परंप मंगन - लाचुंग - थागोर - सोगमो - ने थांगु - गुरुडाँगमेर - मंगन - गागोर के ने ति परंप का विकास सिंगटम-का-टेमी - बेरमोइक टोकेल - फाँगिया - नामची - जारथांग - ओखारे - सोम्बारिया - वामची - जारथांग - ओखारे - सोम्बारिया - नामची - जारथांग - ओखारे - सोम्बारिया - नामची - जारथांग - ओखारे - सोम्बारिया - वामची - जारथांग - अोखारे - सोम्बारिया - वामची - जारथांग - ओखारे - सोम्बारिया - वामची - वामची - जारथांग - मेल्ली (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपथ का विकास (चेन्नई - मामल्लापुरम - रामेश्वरम - मानपाडु - जातातीय परिपथ 2016-17 कन्याकुमारी) का विकास - महत्वुकनगर जिले में इको पर्यटन परिपथ का विकास - मल्लूर - बोगाया झरनों का विकास - मल्लूर - बोगाया झरनों का विकास - मल्लूर - बोगाया झरनों का विकास - अवारयम - मल्लूर - बोगाया झरनों का विकास - अवारयम - अवारयम - मल्लूर - बोगाया झरनों का विकास - अवारयम - अवारयम - मल्लूर - बोगाया झरनों का विकास - अवारयम - मल्लूर - बोगाया झरनों का विकास - अवारयम - मल्लूर - बोगाया झरनों का विकास - अवारयम - विकास - अवारयम - अवारयम - अवारयम - विकास - अवारयम - अवारयम - अवारयम - विकास - अवारयम - अवारयम - चांटरखोला - पिर्यय भूवनेश्वरी-नीरमहल - बॉक्सम्बगर - चोंटरखोला - पिर्यय भूवनेश्वरी-नीरमहल - बॉक्सम्बगर - चोंटरखोला - पिर्य अवारयम - अवारयम - चांटरखोला - पिर्यय अवारयम - विकास - अवारयम - यांटरखोला - पिर्ययम - अवारयम - यांटरखोला - पिर्ययम - वांटरखोला - पिर्ययम - वांटरखोल			2017-18		
अंद्रिक्तम उत्तर-पूर्वी प्राचिष्ण स्मारक, भेड़ता) - योलपुर (बाग-ए- निलोफर और पुराली छावली) - नागौर (मीरा बाई स्मारक, भेड़ता) - टॉक (सुनहरी कोठी) का विकास 98.05					
जिलोफर और पुरानी छावनी) - नागौर (भीरा बाई स्मारक, मेडता) - टॉक (सुनहरी कोठी) का विकास				5	
स्मारक, मेइता) - टॉक (सुनहरी कोठी) का विकास 57. सिकिम उत्तर-पूर्वी परिपथ नाथंग - शेरायांग - सीगमो - गंगटोक - फोडॉग - गुरुडॉगमेर - मंगन - लाचुंग -युमथांग - लाचेन - थांगु - गुरुडॉगमेर - मंगन - लाचुंग -युमथांग - लाचेन - थांगु - गुरुडॉगमेर - मंगन - गंगटोक - तुमिनलिंगी - सिंगतम (लिकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपथ का विकास 2016-17 सिंगटम-मका-टेमी - बेरमोड़क टोकेल - फोनिया - वामची - जोरथांग - ओखारे - सोम्बारिया - वामची - जोरथांग - मेल्ली (लिकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपथ का विकास 2016-17 विकास 2016-17 कन्याकुमारी) का विकास 91.62 विकास 2015-16 विकास युनुगु - लक्नावरम - मेदवरम - तड़बई - दमारवी परिपथ 2016-17 मल्लूर - बोगाथा झरनों का विकास 79.87 2016-17 विकास 2016-17 विकास 2016-17 विकास 2016-17 विकास 2016-17 विकास 2015-16 विकास 2015-16 विकास 2015-16 विकास 2015-16 विकास 2015-16 विकास 2015-16 विकास 2016-17 विरासत परिपथ अगरतला - सेपाहीजला - मेलाघर - उदयपुर - अमरपुर - तीर्थमुख - मंदिरघाट - डंब्र्र - मार्सक्लकुज - गंडाचरा - अंबासा का विकास 2015-16 महिक्तकुज - गंडाचरा - अंबासा का विकास 2016-17 विकास 2018-19 पिलक - अवांगचारा का विकास 2016-17 विकास 2016-17 विवक्त - अवांगचारा का विकास 2016-17 विव				5	
57. सिकिकम उत्तर-पूर्वी परिपथ संगपी (प्रवेश) - रोराथांग - अरितार - फाडमचेन - नाथंग - शेराथांग - सोगमो - गंगटोक - फोडोंग - युज्डांगमेर - मंगन - लाचुंग - युम्यांग - लाचेन - थांगु - युज्डांगमेर - मंगन - गंगटोक - तुमिनलिंगी - सिंगतम (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपथ का विकास 95.32 58. सिकिकम उत्तर-पूर्वी परिपथ वामची - जोरथांग - ओखारे - सोम्बारिया - यारमदिन - जोरेथांग - मेल्ली (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपथ का विकास 95.32 59. तमिलनाडु तटीय परिपथ 2016-17 तटीय परिपथ का विकास (चेन्नई - मामल्लापुरम - रामेश्वरम - मानपाडु - कन्याकुमारी) का विकास 73.13 60. तेलंगाना इको परिपथ 2015-16 विकास जनजातीय मुलुग - लक्तावरम - मेदवरम - लड़वई - दमारवी परिपथ 2016-17 79.87 62. तेलंगाना विरासत परिपथ 2016-17 कुतुकशाही विरासत पार्क-पैगाह मक्करे- ह्यात वर्छा मस्जिद - रेमंड का मक्करा का विकास 96.90 63. त्रियुरा उत्तर-पूर्वी परिपथ 2015-16 अगरतला - सिपाहीजला - मेलाघर - उदयपुर - अमरपुर - तीर्थमुख - मंदिरघाट - डंब्र - नारिकेलकुंज - गंडाचरा - अंबासा का विकास 82.85 64. त्रियुरा उत्तर-पूर्वी परिपथ 2018-19 परिपथ अनुलेशवरी-नीरमहल - बॉक्सनगर - चोट्टाखोला - पिलक - अवांगाचारा का विकास 44.83 65. उत्तर प्रदेश रामायण परिपथ 2016-17 चित्रक्ट और शृंगवेरपुर का विकास 87.89 66. उत्तर प्रदेश आध्यात्मक परिपथ 2016-17 चान्यन्य कासनीज - सरोसी (उन्नाव) - परापग्व-कौशांवी-मिर्जपुर - गोरखपुर - उमरियागंज - बस्ती - बाराबंकी - आजमगढ़ - 71.91 67. उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश अध्यात्मक परिपथ 2016-17 आहर - अलीगढ़ - कासनीज - आजराज - स				9	
परिपर्य वार्यंग - शेरायांग - सांगमो - गंगटोक - फोडाँग - गुण्डोगमेर - मंगन - लाचुंग -युमथांग - लाचेन - थांगु - गुण्डोगमेर - मंगन - गंगटोक - तुमिनलिंगी - सिंगतम (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपय का विकास 58. सिक्किम उत्तर-पूर्वी सिंगटम-मका-टेमी - बेरमोइक टोकेल - फोंगिया - नामची - जोरथांग - ओखारे - सोम्बारिया - ट्रागितन - जोरथांग - ओखारे - सोम्बारिया - ट्रारमदिन - जोरथांग - ओखारे - सोम्बारिया - ट्रारमदिन - जोरथांग - मेल्ली (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपय का विकास 59. तिनेलाडु तटीय परिपथ (चेन्नई - मामल्लापुरम - रामेश्वरम - मानपाडु - 73.13 कन्याकुमारी) का विकास 60. तेलंगाना इको परिपथ ट्राप्ति - महबूबनगर जिले में इको पर्यटन परिपथ का 91.62 विकास 61. तेलंगाना जनजातीय परिपथ ट्राप्ति - सल्लूर - बोगाथा झरनों का विकास 61. तेलंगाना विरासत परिपथ कुनुबशाही विरासत पार्क-पैगाह मकबरे - हयात बर्छ्शी मस्जिद - रेमंड का मकबरा का विकास 62. तेलंगाना विरासत परिपथ अगरतला - सिपाहीजला - मेलाघर - उदयपुर - असरपुर - तीर्थमुख - मंदिरघाट - डंब्र्र - नारिकेलकुंज - गंडाचरा - अंबासा का विकास 63. त्रिपुरा उत्तर-पूर्वी परिपथ अगरतला - सिपाहीजला - मेलाघर - उदयपुर - असरपुर - तीर्थमुख - मंदिरघाट - डंब्र्र - नारिकेलकुंज - गंडाचरा - अंबासा का विकास 64. त्रिपुरा उत्तर-पूर्वी परिपथ अगरतला - सिपाहीजला - क्रमुई हिल्स - गुनाबती - भूवनेश्वरी-नीरमहल - बॉक्सनगर - चोट्टाखोला - पिलक - अंतांगचारा का विकास 65. उत्तर प्रदेश रामायण परिपथ ट्रा8-19 परिपथ अगरतले, कुशीनगर और कपिलवस्तु का विकास 66. उत्तर प्रदेश रामायण परिपथ ट्रा6-17 67. उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक आहर - असीगढ़ - कासगंज - सरोसी (उन्लाव) परापथ परिपथ पराय परिपथ पराय परिपथ पराय परिपथ पराय परिपथ पराय पराय अगरवानी कासगंज - सरोसी (उन्लाव) परापगढ़-कोशांबी-मिर्जापुर - गोरखपुर - ट्रारीवरा - उत्तर-कोशांबी-मिर्जापुर - गोरखपुर - ट्रारीवरा - उत्तरवान - इमरियागंज - बस्ती - बाराबंकी - आरजमगढ़ -		99-	~	3	00.05
2015-16 मंगन - लाचुंग -युमशंग - लाचेन - थांगु - गुरुडाँगमेर - मंगन - गंगटोक - तुमिनिलंगी - सिंगतम (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपथ का विकास 3तर-पूर्वी परिपथ नामची - जोरथांग - मेल्ली (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपथ नामची - जोरथांग - मेल्ली (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपथ का विकास 2016-17 दारमदिन - जोरथांग - मेल्ली (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपथ का विकास 2016-17 कन्न्याकुमारी) का विकास 2016-17 कन्न्याकुमारी) का विकास 2015-16 विकास यरिपथ अमरपुर - तीर्थमुख - मदिरघाट - उद्यपुर - असरपुर - तीर्थमुख - मदिरघाट - उद्यपुर - अवन्थरी-नीरमहल - वॉक्सनगर - चोट्टाखोला - पिलक - अवांगचारा का विकास यरिपथ यरि	5/.	सिक्किम	``	, ,	98.05
शुर्डोंगमेर - मंगंग - गंगटोक - तुमिनिलोंगी - सिंगतम (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपय का विकास अतर-पूर्वी परिपथ नामची - जोरथांग - ओखारे - सोम्बारिया - 2016-17 दारमदिन - जोरथांग - मेल्ली (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपथ का विकास विवास				·	
सिंगतम (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपथ का विकास 3तर-पूर्वी परिपथ नामची - जोरथांग - ओखारे - सोम्बारिया - 2016-17 दारमदिन - जोरथांग - मेल्ली (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपथ का विकास 2016-17 कन्याकुमारी) का विकास 3तर-पूर्वी विकास 2016-17 कन्याकुमारी) का विकास 3नजातीय परिपथ 2015-16 विकास 3नजातीय परिपथ 2015-16 विकास 3नजातीय परिपथ 2016-17 कन्याकुमारी) का विकास 79.87 विकास 2016-17 विरासत परिपथ 2016-17 विकास 3नजातीय परिपथ 2016-17 विरासत परिपथ 2016-17 विरासत परिपथ 2016-17 विरासत परिपथ 2017-18 बस्शी मस्जिद - रेमंड का मकबरा का विकास 96.90 विकास 3तर-पूर्वी अगरतला - सिपाहीजला - मेलाघर - उदयपुर - अगरतला - सिपाहीजला - मेलाघर - उदयपुर - अमरपुर - तीर्थमुख - मंदिरघाट - डंब्र् - नारिकेलकुंज - गंडाचरा - अंबासा का विकास 44.83 परिपथ 2018-19 पलक - अवांगचारा का विकास 2018-19 पलक - अवांगचारा का विकास 87.89 विकास 2016-17 विज्ञान - सरोसी (उन्नाव) परिपथ 2016-17 विज्ञान - सरोसी (उन्नाव) परिपथ 2016-17 जतर प्रदेश आस्प्राचि अग्रवेर अग्रवेर का निकास 3तर प्रदेश आस्प्राचि का विकास 3तर प्रदेश उत्तर प्रदेश जार के अग्रवेर का विकास 3तर जार का विकास 3तर प्रदेश जार के अग्रवेर का विकास 3तर प्रदेश का विकास 3तर प्रदेश जार के अग्रवेर का विकास 3तर प्रदेश जार के अग्रवेर का विकास 3तर प्रदेश जार के अग्रवेर का विकास 3तर प्रदेश का विकास 3			2015-16		
का विकास 58. सिविकम उत्तर-पूर्वी सिगटम-मका-टेमी - बेरमोइक टोकेल - फोंगिया - 95.32 पिरपथ नामची - जोरथांग - ओखारे - सोम्बारिया - 2016-17 दारमदिन - जोरेथांग - मेल्ली (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपथ का विकास 2016-17 कन्याकुमारी) का विकास 73.13					
58. सिक्किम उत्तर-पूर्वी परिथथ नामची - जोरथांग - ओखारे - सोम्बारिया - 2016-17 दारमदिन - जोरथांग - ओखारे - सोम्बारिया - 2016-17 दारमदिन - जोरथांग - मेल्ली (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपथ का विकास 95.32 59. तमिलनाडु तटीय परिपथ 2016-17 कन्याकुमारी) का विकास 73.13 60. तेलंगाना इको परिपथ 2015-16 विकास महबूबनगर जिले में इको पर्यटन परिपथ का 91.62 61. तेलंगाना जनजातीय परिपथ 2016-17 मुलुगु - लकनावरम - मेदवरम - तड़बई - दमारवी परिपथ 2016-17 79.87 62. तेलंगाना विरासत परिपथ 2017-18 बख्शी मस्जिद - रेमंड का मकबरा का विकास 96.90 63. त्रिपुरा उत्तर-पूर्वी परिपथ 2015-16 नारिकलकुंज - गंडाचरा - अंबासा का विकास 82.85 64. त्रिपुरा उत्तर-पूर्वी परिपथ 2018-19 पिलक - अवांगचारा का विकास 44.83 65. उत्तर प्रदेश वांद्ध परिपथ 2016-17 भावस्ती, कुशीनगर और किपलवस्तु का विकास 87.89 65. उत्तर प्रदेश रामायण परिपथ 2016-17 चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर का विकास 69.45 67. उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक परिपथ 2016-17 आध्यात्मिक परिपथ 3तार मोजा - सरोसी (उन्नाव) परिपथ 2016-17 नासगढ़ - कासगंज - सरोसी (उन्नाव) परिपथ 3तारगढ़ - अंशाबी-मिर्जापुर - गोरखपुर - 2016-17 नासगढ़ - कासगंज - सरोसी 3 नाराबंक - आजमगढ़ - 3ताराबंक - 3ता				, ,	
परिपथ नामची - जोरथांग - ओखारे - सोम्बारिया - 2016-17 दारमदिन - जोरेथांग - मेल्ली (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपथ का विकास 59. तमिलनाडु तटीय परिपथ (येन्नई - मामल्लापुरम - रामेश्वरम - मानपाडु - 2016-17 कन्याकुमारी) का विकास 60. तेलंगाना इको परिपथ महब्बनगर जिले में इको पर्यटन परिपथ का 2015-16 विकास 61. तेलंगाना जनजातीय मुलुगु - लकनावरम - मेदवरम - तड़वई - दमारवी परिपथ - मल्लूर - बोगाथा झरनों का विकास 2016-17 विरासत परिपथ कुनुबशाही विरासत पार्क-पैगाह मकबरे- हयात वुखशी मस्जिद - रेमंड का मकबरा का विकास 62. तेलंगाना विरासत परिपथ अगरतला - सिपाहीजला - मेलाघर - उदयपुर - विराप्त परिपथ अगरतला - तथिमुख - मंदिरघाट - डंब्र्र - 2015-16 नारिकेलकुंज - गंडाचरा - अंबासा का विकास 64. त्रिपुरा उत्तर-पूर्वी सुरमाचेरी - उनाकोटी - जम्पुई हिल्स - गुनाबती - परिपथ भुवनेश्वरी-नीरमहल - बॉक्सनगर - चोट्टाखोला - 2018-19 पिलक - अवांगचारा का विकास 65. उत्तर प्रदेश बौद्ध परिपथ शुवकेश्वरी-नीरमहल - बॉक्सनगर - चोट्टाखोला - 2016-17 चित्रकूट और शृंगवेरपुर का विकास 67. उत्तर प्रदेश रामायण परिपथ 2016-17 चित्रकूट और शृंगवेरपुर का विकास (उन्नाव)- परिपथ प्रतापगढ़-कौशांबी-मिजीपुर - गोरखपुर - योरखपुर - 2016-17 इमरियागंज - बस्ती - बाराबंकी - आजमगढ़ -		00	~		0- 00
2016-17 दारमदिन - जोरेथांग - मेल्ली (निकास) को जोड़ने वाले पर्यटक परिपथ का विकास 373.13 2016-17 कन्याकुमारी) का विकास 73.13 73.13 2016-17 कन्याकुमारी) का विकास 73.13 73.13 2015-16 विकास महबूबनगर जिले में इको पर्यटन परिपथ का 2015-16 विकास मुलुगु - लकनावरम - मेदवरम - तड़वई - दमारवी परिपथ - मल्लूर - बोगाथा झरनों का विकास 2016-17 2016-17 विरासत परिपथ कुतुबशाही विरासत पार्क-पैगाह मकबरे- हयात 2017-18 विश्वास उत्तर-पूर्वी अगरतला - सिपाहीजला - मेलाघर - उदयपुर - थारिपथ अमरपुर - तीर्थमुख - मंदिरघाट - डंब्र्र - वारिकलकुंज - गंडाचरा - अंबासा का विकास 44.83 44.83 2018-19 पिलक - अवांगचारा का विकास 87.89 2016-17 2016-17 2016-17 3तर प्रदेश आध्यात्मक परिपथ अगरतला - स्वांमका 44.81 44.83	58.	सिक्किम	``	•	95.32
वाले पर्यटक परिपथ का विकास 73.13					
59. तिमिलनाडु तटीय परिपथ 2016-17 (चेन्नई - मामल्लापुरम - रामेश्वरम - मानपाडु - कन्याकुमारी) का विकास 73.13 60. तेलंगाना इको परिपथ 2015-16 विकास 91.62 61. तेलंगाना जनजातीय परिपथ 2016-17 मुलुगु - लकनावरम - मेदवरम - तड़वई - दमारवी परिपथ 2016-17 79.87 62. तेलंगाना विरासत परिपथ 2017-18 कुतुबशाही विरासत पर्क-पैगाह मकबरे- हयात बख्शी मस्जिद - रेमंड का मकबरा का विकास 96.90 63. त्रिपुरा उत्तर-पूर्वी परिपथ 3गरतला - सिपाहीजला - मेलाघर - उदयपुर - निर्मुख - मंदिरघाट - डंबूर - निर्मुख - मंदिरघाट - डंबूर - निर्मुख - गंडाचरा - अंबासा का विकास 82.85 64. त्रिपुरा उत्तर-पूर्वी प्रमाचेर्य - उनाकोटी - जम्पुई हिल्स - गुनाबती - भुवनेश्वरी-नीरमहल - बॉक्सनगर - चोट्टाखोला - 2018-19 44.83 65. उत्तर प्रदेश बौद्ध परिपथ अवस्ती, कुशीनगर और किपलवस्तु का विकास 87.89 66. उत्तर प्रदेश रामायण परिपथ विक्टू और श्रृंगवेरपुर का विकास 69.45 67. उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक परिपथ प्रतापगढ़-कौशांबी-मिर्जापुर - गोरखपुर - योरखपुर - 2016-17 त्रारागढ़की - आज्ञानगढ़ - सस्ती - बाराबंकी - आज्ञानगढ़ - रामाय - 2016-17			2016-17		
2016-17 कल्याकुमारी) का विकास 91.62				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
60. तेलंगाना इको परिपथ 2015-16 महबूबनगर जिले में इको पर्यटन परिपथ का विकास 91.62 61. तेलंगाना जनजातीय परिपथ 2016-17 मुलुगु - लकनावरम - मेदवरम - तड़वई - दमारवी परिपथ 2016-17 79.87 62. तेलंगाना विरासत परिपथ 2017-18 कुतुबशाही विरासत पार्क-पैगाह मकबरे- हयात बख्शी मस्जिद - रेमंड का मकबरा का विकास 96.90 63. त्रिपुरा 3तर-पूर्वी परिपथ 2015-16 अगरतला - सिपाहीजला - मेलाघर - उदयपुर - इब्रूर - नारिकेलकुंज - गंडाचरा - अंबासा का विकास 82.85 64. त्रिपुरा 3तर-पूर्वी परिपथ अवनेश्वरी-जीरमहल - बॉक्सनगर - चोट्टाखोला - पित्पथ 2018-19 प्रमाचर्रा - उनाकोटी - जम्पुई हिल्स - गुनाबती - पित्पथ अवनेश्वरी-जीरमहल - बॉक्सनगर - चोट्टाखोला - पिलक - अवांगचारा का विकास 44.83 65. उत्तर प्रदेश बौद्ध परिपथ 2016-17 श्रावस्ती, कुशीनगर और किपलवस्तु का विकास 69.45 66. उत्तर प्रदेश रामायण परिपथ 2016-17 चित्रकृट और श्रृंगवेरपुर का विकास 69.45 67. उत्तर प्रदेश आध्यात्मक परिपथ परिपथ परिपथ 5016-17 आहर - अलीगढ़ - कासगंज - सरोसी (उन्नाव)- परिपथ 71.91 तत्रायगढ़-कौशांबी-मिर्जापुर - गोरखपुर - 2016-17 इमिरयागंज - बस्ती - बाराबंकी - आजमगढ़ -	59.	र्तामेलनाडु			73.13
61. तेलंगाना जनजातीय पिरपथ पिरपथ 2016-17 मुलुगु - लकनावरम - मेदवरम - तइवई - दमारवी परिपथ 2016-17 79.87 62. तेलंगाना विरासत परिपथ 3 व्याप्त विरासत पार्क-पैगाह मकबरे- हयात 2017-18 96.90 63. त्रिपुरा उत्तर-पूर्वी परिपथ 3मरजुद - रेमंड का मकबरा का विकास 4018-पृथा - मेलाघर - उदयपुर - श्रीध्मुख - मंदिरघाट - डंबूर - 2015-16 82.85 64. त्रिपुरा उत्तर-पूर्वी प्रिपथ 3तर-पूर्वी परिपथ 4018-पृथा - स्रमाचर्या - उनाकोटी - जम्पुई हिल्स - गुनाबती - भुवनेश्वरी-नीरमहल - बॉक्सनगर - चोट्टाखोला - पिलक - अवांगचारा का विकास 5018-19 44.83 65. उत्तर प्रदेश बौद्ध परिपथ 2016-17 श्रावस्त्री, कुशीनगर और किष्तवस्तु का विकास 69.45 66. उत्तर प्रदेश रामायण परिपथ 2016-17 चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर का विकास 69.45 67. उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक परिपथ 2016-17 आहर - अलीगढ़ - कासगंज - सरोसी (उन्नाव) परिपथ प्रतापगढ़-कौशांबी-मिर्जापुर - गोरखपुर - 2016-17 71.91 67. उत्तर प्रदेश अध्यात्मिक परिपथ 3 मुमर्यागंज - बस्ती - बाराबंकी - आजमगढ़ - 71.91				3	
61. तेलंगाना जनजातीय परिपथ 2016-17 मुलुगु - लकनावरम - मेदवरम - तइवई - दमारवी - मल्लूर - बोगाथा झरनों का विकास 79.87 62. तेलंगाना विरासत परिपथ 3 व्रुतुबशाही विरासत पार्क-पैगाह मकबरे- हयात 2017-18 96.90 63. त्रिपुरा उत्तर-पूर्वी परिपथ 3गरतला - सिपाहीजला - मेलाघर - उदयपुर - अगरपुर - तीर्थमुख - मंदिरघाट - डंबूर - गिरिकलकुंज - गंडाचरा - अंबासा का विकास 82.85 64. त्रिपुरा उत्तर-पूर्वी परिपथ 3वतर-पूर्वी परिपथ 2018-19 स्रमाचर्रा - उनाकोटी - जम्पुई हिल्स - गुनाबती - अवंश्वश्वरी-नीरमहल - बॉक्सनगर - चोट्टाखोला - पिलक - अवांगचारा का विकास 44.83 65. उत्तर प्रदेश बौद्ध परिपथ 2016-17 श्रावस्त्री, कुशीनगर और किपलवस्तु का विकास 2016-17 87.89 66. उत्तर प्रदेश रामायण परिपथ 2016-17 चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर का विकास 2016-17 69.45 67. उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक परिपथ 2016-17 आहर - अलीगढ़ - कासगंज - सरोसी (उन्नाव) परिपथ 2016-17 71.91 67. उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक परिपथ 3 नारखपुर - 3 नारखपुर	60.	तेलंगाना	'	_ '	91.62
परिपथ 2016-17 - मल्लूर - बोगाथा झरनों का विकास 2016-17 विरासत परिपथ कुतुबशाही विरासत पार्क-पैगाह मकबरे- हयात 2017-18 बख्शी मस्जिद - रेमंड का मकबरा का विकास 2017-18 अगरतला - सिपाहीजला - मेलाघर - उदयपुर - 2015-16 जारिकेलकुंज - गंडाचरा - अंबासा का विकास 2015-16 नारिकेलकुंज - गंडाचरा - अंबासा का विकास 2015-16 परिपथ भुवनेश्वरी-नीरमहल - बॉक्सनगर - चोट्टाखोला - 2018-19 पिलक - अवांगचारा का विकास 2016-17 चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर का विकास 2016-17 विज्ञकूट और श्रृंगवेरपुर का विकास 2016-17 उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक परिपथ प्रतापगढ़-कौशांबी-मिर्जापुर - गोरखपुर - 2016-17 इमरियागंज - बस्ती - बाराबंकी - आजमगढ़ -					
62. तेलंगाना विरासत परिपथ 2017-18 कृतुबशाही विरासत पार्क-पैगाह मकबरे- हयात विश्वास 2017-18 96.90 63. त्रिपुरा उत्तर-पूर्वी परिपथ 3गरतला - सिपाहीजला - मेलाघर - उदयपुर - इब्रूर - 2015-16 नारिकेलकुंज - गंडाचरा - अंबासा का विकास 82.85 64. त्रिपुरा उत्तर-पूर्वी प्रमाचेर्रा - उनाकोटी - जम्पुई हिल्स - गुनाबती - परिपथ भुवनेश्वरी-नीरमहल - बॉक्सनगर - चोट्टाखोला - 2018-19 44.83 65. उत्तर प्रदेश बौद्ध परिपथ 2016-17 आवस्ती, कृशीनगर और किपलवस्तु का विकास 2016-17 87.89 66. उत्तर प्रदेश रामायण परिपथ 2016-17 चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर का विकास 69.45 69.45 67. उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक परिपथ परिपथ परागढ़-कौशांबी-मिर्जापुर - गोरखपुर - 2016-17 जारमगढ़ - गोरखपुर - यामायल - इमरियागंज - बस्ती - बाराबंकी - आजमगढ़ - 71.91	61.	तेलंगाना			79.87
62. तेलंगाना विरासत परिपथ 2017-18 कुतुबशाही विरासत पार्क-पैगाह मकबरे- हयात बख्शी मस्जिद - रेमंड का मकबरा का विकास 96.90 63. त्रिपुरा उत्तर-पूर्वी पिरपथ अमरपुर - तीर्थमुख - मंदिरघाट - डंबूर - 2015-16 नारिकेलकुंज - गंडाचरा - अंबासा का विकास 82.85 64. त्रिपुरा उत्तर-पूर्वी प्रमाचेर्रा - उनाकोटी - जम्पुई हिल्स - गुनाबती - पिरपथ भुवनेश्वरी-नीरमहल - बॉक्सनगर - चोट्टाखोला - 2018-19 44.83 65. उत्तर प्रदेश बौद्ध परिपथ भावस्ती, कुशीनगर और किपलवस्तु का विकास 87.89 66. उत्तर प्रदेश रामायण परिपथ 2016-17 चित्रकूट और शृंगवेरपुर का विकास 69.45 67. उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक परिपथ प्रतापगढ़-कौशांबी-मिर्जापुर - गोरखपुर - 2016-17 नारखपुर - गोरखपुर - इमरियागंज - बस्ती - बाराबंकी - आजमगढ़ - 71.91				- मल्लूर - बोगाथा झरनों का विकास	
2017-18 बख्शी मस्जिद - रेमंड का मकबरा का विकास 82.85 3तर-पूर्वी अगरतला - सिपाहीजला - मेलाघर - उदयपुर - उपरिपथ अमरपुर - तीर्थमुख - मंदिरघाट - डंबूर - विकास 2015-16 वारिकेलकुंज - गंडाचरा - अंबासा का विकास 44.83 64. त्रिपुरा उत्तर-पूर्वी सूरमाचेर्रा - उनाकोटी - जम्पुई हिल्स - गुनाबती - पिपथ भुवनेश्वरी-नीरमहल - बॉक्सनगर - चोट्टाखोला - 2018-19 पिलक - अवांगचारा का विकास 87.89 65. उत्तर प्रदेश बौद्ध परिपथ श्रावस्ती, कुशीनगर और कपिलवस्तु का विकास 87.89 66. उत्तर प्रदेश रामायण परिपथ चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर का विकास 69.45 2016-17 उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक परिपथ प्रतापगढ़-कौशांबी-मिर्जापुर - गोरखपुर - य016-17 इमरियागंज - बस्ती - बाराबंकी - आजमगढ़ -					
63. त्रिपुरा उत्तर-पूर्वी पिरपथ अगरतला - सिपाहीजला - मेलाघर - उदयपुर - इब्तूर - विधमुख - मंदिरघाट - इंब्तूर - वारिकेलकुंज - गंडाचरा - अंबासा का विकास 82.85 64. त्रिपुरा उत्तर-पूर्वी प्रमाचेर्रा - उनाकोटी - जम्पुई हिल्स - गुनाबती - परिपथ भुवनेश्वरी-नीरमहल - बॉक्सनगर - चोट्टाखोला - 2018-19 44.83 65. उत्तर प्रदेश बौद्ध परिपथ 2016-17 आवस्ती, कुशीनगर और किपलवस्तु का विकास 2016-17 87.89 66. उत्तर प्रदेश रामायण परिपथ 2016-17 चित्रकूट और शृंगवेरपुर का विकास 2016-17 69.45 67. उत्तर प्रदेश आध्यात्मक परिपथ प्रतापगढ़-कौशांबी-मिर्जापुर - गोरखपुर - 2016-17 गरामगढ़-कौशांबी-मिर्जापुर - गोरखपुर - 3016-17 71.91	62.	तेलंगाना	विरासत परिपथ	3 9	96.90
परिपथ अमरपुर - तीर्थमुख - मंदिरघाट - डंब्र्र - वारिकेलकुंज - गंडाचरा - अंबासा का विकास 64. त्रिपुरा उत्तर-पूर्वी सूरमाचेर्रा - उनाकोटी - जम्पुई हिल्स - गुनाबती - परिपथ भुवनेश्वरी-नीरमहल - बॉक्सनगर - चोट्टाखोला - 2018-19 पिलक - अवांगचारा का विकास 65. उत्तर प्रदेश बौद्ध परिपथ श्रावस्ती, कुशीनगर और कपिलवस्तु का विकास 87.89 2016-17 66. उत्तर प्रदेश रामायण परिपथ चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर का विकास 69.45 67. उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक आहर - अलीगढ़ - कासगंज - सरोसी (उन्नाव)- परिपथ प्रतापगढ़-कौशांबी-मिर्जापुर - गोरखपुर - 2016-17 डुमिरयागंज - बस्ती - बाराबंकी - आजमगढ़ -			2017-18	बख्शी मस्जिद - रेमंड का मकबरा का विकास	
2015-16 नारिकेलकुंज - गंडाचरा - अंबासा का विकास 44.83 64. त्रिपुरा उत्तर-पूर्वी सूरमाचेर्रा - उनाकोटी - जम्पुई हिल्स - गुनाबती - 44.83 परिपथ भुवनेश्वरी-नीरमहल - बॉक्सनगर - चोट्टाखोला - 2018-19 पिलक - अवांगचारा का विकास 87.89 65. उत्तर प्रदेश बौद्ध परिपथ श्रावस्ती, कुशीनगर और किपलवस्तु का विकास 87.89 2016-17 चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर का विकास 69.45 67. उत्तर प्रदेश साध्यात्मिक आहर - अलीगढ़ - कासगंज - सरोसी (उन्नाव) 71.91 परिपथ प्रतापगढ़-कौशांबी-मिर्जापुर - गोरखपुर - डुमिरेयागंज - बस्ती - बाराबंकी - आजमगढ़ -	63.	त्रिपुरा	उत्तर-पूर्वी	अगरतला - सिपाहीजला - मेलाघर - उदयपुर -	82.85
64. त्रिपुरा उत्तर-पूर्वी स्र्माचेर्रा - उनाकोटी - जम्पुई हिल्स - गुनाबती - पिपथ 44.83 65. उत्तर प्रदेश बौद्ध पिपथ श्रावस्ती, कुशीनगर और किपलवस्तु का विकास 87.89 66. उत्तर प्रदेश रामायण पिपथ चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर का विकास 69.45 67. उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक आहर - अलीगढ़ - कासगंज - सरोसी (उन्नाव)- पिपथ 71.91 परिपथ प्रतापगढ़-कौशांबी-मिर्जापुर - गोरखपुर - 2016-17 डुमिरयागंज - बस्ती - बाराबंकी - आजमगढ़ -			परिपथ	3	
परिपथ भुवनेश्वरी-नीरमहल - बॉक्सनगर - चोट्टाखोला - 2018-19 पिलक - अवांगचारा का विकास 87.89 65. उत्तर प्रदेश बौद्ध परिपथ श्रावस्ती, कुशीनगर और कपिलवस्तु का विकास 87.89 66. उत्तर प्रदेश रामायण परिपथ चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर का विकास 69.45 67. उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक आहर - अलीगढ़ - कासगंज - सरोसी (उन्नाव)- परिपथ प्रतापगढ़-कौशांबी-मिर्जापुर - गोरखपुर - 2016-17 डुमरियागंज - बस्ती - बाराबंकी - आजमगढ़ -			2015-16	7	
2018-19 पिलक - अवांगचारा का विकास 87.89	64.	त्रिपुरा	उत्तर-पूर्वी	9 9	44.83
65. उत्तर प्रदेश बौद्ध परिपथ 2016-17 श्रावस्ती, कुशीनगर और किपलवस्तु का विकास 2016-17 87.89 66. उत्तर प्रदेश रामायण परिपथ 2016-17 चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर का विकास 2016-17 69.45 67. उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक परिपथ प्रतापगढ़-कौशांबी-मिर्जापुर - गोरखपुर - 2016-17 71.91 परिपथ इमिरयागंज - बस्ती - बाराबंकी - आजमगढ़ - इमिरयागंज - बस्ती - बाराबंकी - आजमगढ़ -			परिपथ	भुवनेश्वरी-नीरमहल - बॉक्सनगर - चोट्टाखोला -	
2016-17 66. उत्तर प्रदेश रामायण परिपथ वित्रकूट और श्रृंगवेरपुर का विकास 69.45 67. उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक परिपथ प्रतापगढ़-कौशांबी-मिर्जापुर - गोरखपुर - 2016-17 जारखपुर - इमरियागंज - बस्ती - बाराबंकी - आजमगढ़ -			2018-19	पिलक - अवांगचारा का विकास	
66. उत्तर प्रदेश रामायण परिपथ चित्रकूट और श्रृंगवेरपुर का विकास 69.45 67. उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक आहर - अलीगढ़ - कासगंज - सरोसी (उन्नाव)- परिपथ प्रतापगढ़-कौशांबी-मिर्जापुर - गोरखपुर - 2016-17 डुमरियागंज - बस्ती - बाराबंकी - आजमगढ़ -	65.	उत्तर प्रदेश	बौद्ध परिपथ	श्रावस्ती, कुशीनगर और कपिलवस्तु का विकास	87.89
2016-17 67. उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक आहर - अलीगढ़ - कासगंज - सरोसी (उन्नाव)- 71.91 परिपथ प्रतापगढ़-कौशांबी-मिर्जापुर - गोरखपुर - 2016-17 डुमरियागंज - बस्ती - बाराबंकी - आजमगढ़ -			2016-17		
67. उत्तर प्रदेश आध्यात्मिक आहर - अलीगढ़ - कासगंज - सरोसी (उन्नाव)- परिपथ प्रतापगढ़-कौशांबी-मिर्जापुर - गोरखपुर - 2016-17 डुमरियागंज - बस्ती - बाराबंकी - आजमगढ़ -	66.	उत्तर प्रदेश	रामायण परिपथ	चित्रकूट और शृंगवेरपुर का विकास	69.45
परिपथ प्रतापगढ़-कौशांबी-मिर्जापुर - गोरखपुर - 2016-17 डुमरियागंज - बस्ती - बाराबंकी - आजमगढ़ -			2016-17		
2016-17 डुमरियागंज - बस्ती - बाराबंकी - आजमगढ़ -	67.	उत्तर प्रदेश	आध्यात्मिक	आहर - अलीगढ़ - कासगंज - सरोसी (उन्नाव)-	71.91
			परिपथ	प्रतापगढ़-कौशांबी-मिर्जापुर - गोरखपुर -	
कैराना - बागपत - शाहजहांपर का विकास			2016-17	डुमरियागंज - बस्ती - बाराबंकी - आजमगढ़ -	
				कैराना - बागपत - शाहजहांपुर का विकास	

68.	उत्तर प्रदेश	आध्यात्मिक परिपथ	बिजनौर-मेरठ-कानपुर - कानपुर देहात - बांदा- गाजीपुर-सलेमपुर- घोसी - बलिया - अम्बेडकर	67.51
		2016-17	नगर-अलीगढ़-फतेहपुर-देवरिया-महोबा- सोनभद्र -	
		2010-17	चंदौली - मिश्रिख - भदोही का विकास	
69.	112 91	विरासत परिपथ		36.65
09.	उत्तर प्रदेश		कालिंजर किला (बांदा) - मगहरधाम (संतकबीर	36.63
		2016-17	नगर) - चौरीचौरा, शहीद स्थल (फतेहपुर) -	
			महुअर शहीद स्थल (घोसी) - शहीद स्मारक	
	\ -	0 -	(मेरठ) का विकास	
70.	उत्तर प्रदेश		अयोध्या का विकास	127.21
		2017-18		
71.	उत्तर प्रदेश	आध्यात्मिक	जेवर - दादरी - सिकंदराबाद - नोएडा - खुर्जा -	12.03
		परिपथ	बांदा का विकास	
		2018-19		
72.	उत्तर प्रदेश	आध्यात्मिक	गोरखनाथ मंदिर (गोरखपुर), देवीपट्टन मंदिर	18.30
		परिपथ	(बलरामपुर) और वटवाशनी मंदिर (डुमरियागंज)	
		2018-19	का विकास	
73.	उत्तराखंड	इको परिपथ	टिहरी झील और निकटवर्ती क्षेत्रों का नए गंतव्य	69.17
		2015-16	के रूप में विकास के लिए इको-पर्यटन, एडवेंचर	
			स्पोर्ट्स और संबद्ध पर्यटन संबंधी अवसंरचना का	
			एकीकृत विकास - जिला टिहरी	
74.	उत्तराखंड	विरासत परिपथ	क्माऊं क्षेत्र में विरासत परिपथ - कटारमल -	76.32
		2016-17	जोगेश्वर - बैजनाथ - देवीधुरा का एकीकृत विकास	
75.	पश्चिम	तटीय परिपथ	तटीय परिपथ: उदयपुर - दीघा - शंकरपुर -	67.99
	बंगाल	2015-16	ताजपुर - मंदारमणि - फ्रेजरगंज - बक्खलाई -	
			हेनरी द्वीप का विकास	
76.	-	मार्गस्थ	सङ्क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के सहयोग	17.50
		सुविधाएं	से उत्तर प्रदेश और बिहार में वाराणसी - गया;	
		2018-19	कुशीनगर - गया - कुशीनगर में मार्गस्थ	
			र स्विधाओं का विकास	
		1	कुल राशि	5290.33

नोट:- क्र.सं. 33 पर उल्लिखित परियोजना को छोड़कर उपर्युक्त सभी परियोजनाओं के भौतिक रूप से पूरा होने की सूचना दी गई है।

श्रीमती कृति देवी देबबर्मन द्वारा त्रिपुरा में जनजातीय समुदाय के लिए प्रयास के संबंध में दिनांक 18.08.2025 को पूछे जाने वाले लोक सभा के लिखित प्रश्न सं. †4031 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान डीपीपीएच योजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा समर्थित मेलों और महोत्सवों का विवरण निम्नानुसार है:

(लाख रु. में)

राज्य का नाम	वर्ष	मेलों और महोत्सवों के नाम	स्वीकृत राशि
	2020-21	भारत बांग्ला महोत्सव	25.00
		नीरमहल महोत्सव	10.00
	2022-23	दिवाली महोत्सव	5.00
		चबीमुरा महोत्सव	5.00
		नीरमहल महोत्सव	9.80
त्रिपुरा	2023-24	दिवाली महोत्सव	9.55
		चबीमुरा महोत्सव	3.00
		दिवाली महोत्सव	20.00
	2024-25	चबीमुरा और तीर्थमुख महोत्सव	12.00
		अशोकाष्टमी महोत्सव	5.00
		चपचारकूट महोत्सव	5.00
